

SKPM/SEC.DEPT/2025-26
DECEMBER 17, 2025

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Deptt.
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001

Dear Sir/Ma'am

Scrip Code:500388

Subject: Newspaper Advertisement of Postal Ballot Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the enclosed below, the newspaper clippings of Postal Ballot Notice which was published on 17.12.2025 in the following newspapers:

1. Business Standard- English language national daily newspaper.
2. Business Standard - Hindi Edition.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.

RITIKA
PRIYAM

Digitally signed
by RITIKA PRIYAM
Date: 2025.12.17
13:00:26 +05'30'

**Ritika Priyam
(Company Secretary & Compliance Officer)
Mem No: A53502**

Encl: As above

Arpu gains set to support Bharti Airtel's valuation

Lower capex, customer upgrade among major drivers

RAM PRASAD SAHU
Mumbai, 16 December

The stock of telecom major Bharti Airtel was up 1.6 per cent on Tuesday, taking its overall gains for the past year to 26.4 per cent. The stock was the top gainer in benchmark indices. The gains are on expectations that tariff hikes, premiumisation, and peaking out of capital expenditure (capex) spend should help support valuations and sustain further gains from the current levels.

At the current price of ₹2,102, the stock is trading at 38 times its FY27 earnings per share. Tariff hikes by key players, lower capex and customer upgrade are among the major drivers for the stock.

Analysts, led by Sumangal Nevatia of Kotak Institutional Equities, expect a favourable market construct for the industry, with a reduction in capex intensity and improving average revenue per user (Arpu) aiding strong earnings and free cash flow growth.

They have an add rating and believe Bharti Airtel is the best direct telecom play in the listed space. The target price for the stock is ₹2,250. Among the triggers is the increase in tariffs, leading to a rise in Arpus.


Morgan Stanley Research believes that its thesis for industry repair and Arpu increases have been supported further by recent developments around improving monetisation, including the removal of lower priced packs/moving OTT benefits to higher priced packs.

Analysis, led by Gaurav Rateria of the brokerage, say that tariff hikes could now happen in Q1FY27 compared to the earlier assumption of Q2FY27. They are also increasing the range of hikes to 16-20 per cent (from 15 per cent) for 4G/5G subscribers.

The increase will boost revenues by 2-4 per cent and operating profit by 3-6 per cent over FY26-28 for the India business and this excludes



Strong signals



passive infrastructure. Three fourths of Bharti Airtel's revenues come from the Indian market. The brokerage has a target price of ₹2,435.

JM Financial Research believes that Reliance Jio's planned initial public offering (IPO) will further strengthen Jio and Bharti Airtel's free cash flow growth story. They expect the Arpus of telcos to grow at 12 per cent annually over FY25-28 with higher Arpu requirement for Jio.

This is not only to justify its significant 5G capex but also given its announced IPO plan for H1 of 2026.

Analysts led by Dayanand Mittal of the brokerage expect telcos to post a 14-18 per cent operating profit growth over FY25-28. This would be led by a 6-7 per cent growth due to tariff hikes and 5-6

per cent growth owing to multiple premiumisation strategies.

Further, potential repair of industry tariff structure to 'pay as you use' model is likely to aid Arpu growth in the long term.

A near-to-medium term overhang, however, is a possibility of continued stake sale by promoters to outside investors as Singtel (effective stake at 27.5 per cent) and the Mittal family (effective stake at 21.4 per cent) plan to equalise their stake. The brokerage has a buy rating on Bharti Airtel with a target price of ₹2,460 a share.

While Bharti Airtel's capex has been moderating for the last eight quarters since it hit a 5G-led peak in Q1FY24, led by wireless capex moderation, what could weigh on the cash flows is a reversal of this trend.

Analysts, led by Ankur Rudra of JP Morgan Research, point out that a moderating capex and increase in cash flows have made Bharti Airtel a stock market favourite and the best performing megacap (>\$100 billion market capitalisation) year-to-date.

However, ambitions to accelerate broadband growth, build a 1GW data centre and early signs of 5G capacity constraints suggest sharp risks to this assumption, they add.

The brokerage has an overweight rating with a target price of ₹2,380 per share.



BELATED RETURNS

Claim refunds and tax credits, carry forward house property loss

SANJEEV SINHA

With the December 31 deadline for filing a belated return fast approaching, individual taxpayers who missed the original income-tax return (ITR) filing date are running out of time to set things right. This belated return window offers a final opportunity in the current assessment year to disclose income, pay pending taxes and regularise compliance, albeit at a cost. Failing to act before the deadline can have long-term consequences. While a belated return attracts interest and late fees, tax experts say it is far preferable to not filing at all.

What is a belated return?

A taxpayer — whether an individual, Hindu Undivided Family (HUF), firm, company, or any other assessee — who fails to file an ITR within the original due date under Section 139(1) of the I-T Act can file a belated return under Section 139(4).

"A belated return may be filed when the return has not been submitted by the original due

date. Taxpayers should file a belated return if any income remains to be reported or any tax liability is unpaid. This allows them to voluntarily comply with the law, albeit with applicable consequences," says Deepashree Shetty, partner — global mobility services, tax & regulatory advisory, BDO India.

A belated return can be filed until December 31 of the relevant assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. "A belated return for FY 2024-25 (AY 2025-26) can be filed up to December 31, 2025. This deadline is statutory and cannot be extended," says Shetty.

Claim refunds, tax credits

Filing a belated return is far better than not filing at all. "It allows the taxpayer to claim certain losses such as house property loss and unabsorbed depreciation (if the individual has business income), and to seek refunds or credit for taxes already deducted or paid," says Vishwas Panjari, founder, SVAS Business Advisors.

Failure to file a return alto-

Penalties and interest on belated return

- Late filing fee (Section 234F): ₹5,000; ₹1,000 where total income does not exceed ₹5 lakh
- Interest for delayed filing (Section 234A): 1% per month (or part thereof) on tax payable, from the due date till filing/payment
- Interest for advance tax default (Sections 234B & 234C): Interest on tax payable, as applicable

gether can also expose taxpayers to prosecution, including the risk of rigorous imprisonment.

Consequences of not filing

Taxpayers who miss the December 31, 2025, deadline for FY 2024-25 can file an updated return under Section 139(8A), but only to report additional income and pay the resulting tax.

"An updated return can be filed within four years from the end of the relevant assessment year — i.e., by March 31, 2030, for FY2024-25. This would involve payment of applicable tax and interest, along with an additional tax ranging from 25 per cent to 70 per cent, depending on the delay," says Sudhakar Sethuraman, partner, Deloitte India.

Filing an updated return has certain disadvantages. "An updated return cannot be filed to claim or enhance refunds, even if arising from TDS/TCS (tax deducted at source/tax collected at source) as reflected in Form 26AS. Taxpayers missing the belated return deadline may, therefore, permanently lose their right to claim eligible refunds,"

says Sanjoli Maheshwari, executive director, Nangia & Co.

Some losses can be carried forward

According to the I-T Act, losses under capital gains and profits and gains from business or profession (PGBP) can be carried forward only if the return is filed within the original due date — July 31 or October 31, as applicable. "However, losses from house property and unabsorbed depreciation can be carried forward even if a belated return is filed," says Maheshwari.

Effects on refunds, scrutiny and compliance

Filing a belated return has implications beyond penalties. "Refunds are processed later as Section 143(1) processing is delayed, and interest under Section 244A is calculated only from the actual filing date, reducing the payout. Late filing may also raise scrutiny risk due to system-generated alerts," says Sethuraman.

Common mistakes to avoid

Taxpayers should take care to ensure accuracy when filing a belated return. "Financial records such as bank statements and invoices should be reviewed and reconciled with Form 26AS and the annual information statement (AIS). Disclosures relating to residential status and foreign assets or financial interests must be made wherever applicable," says Sethuraman.

"Taxpayers should avoid incorrectly claiming the carry forward of capital or business losses, which is not permitted in a belated return," says Maheshwari.

The writer is a New Delhi-based independent journalist

Why are children's mutual funds becoming popular?

Children's mutual funds, once a niche category, are now becoming a key tool for long-term investment planning for education in Indian households. New data from Ica Analytics shows that assets under management (AUM) in children's funds have surged 160 per


cent in the last five years, rising to ₹25,675 crore in November 2025 from ₹9,866 crore in November 2020. Top-performing schemes have been delivering 20-30 per cent CAGR for the last three to five years — far outpacing traditional savings products.

A hedge against general inflation
Education costs are rising faster than incomes, and traditional savings instruments are no longer sufficient. With private school fees rising at 11-12 per cent annually, and higher education inflation outpac-

ing general inflation for more than a decade, families are turning to market-linked products that can keep pace. "There are close to 12 such funds currently available in the market and some of the top-performing funds have delivered an average CAGR of 15-20 per cent in

the last three-to-five years. This has made these funds a favoured choice among parents for securing children's education and future milestones, reflecting a clear shift from conventional savings to market-linked instruments," said Ica Analytics in a note.

COMPILED BY SUNAINAA CHADHA

**Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.**

Regd. Office: 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road,
Darya Ganj, New Delhi - 110 002
CIN: L21012DL1972PLC279773

Website: www.skpmil.com E-mail: info@skpmil.com Tel: 91-11-46263200

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and other applicable provisions of the Act and Rules, along with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 03/ 2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with relevant circulars of SEBI and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof) for the time being in force and as amended from time to time, the Postal Ballot Notice dated December 08, 2025 has been dispatched on December 16, 2025 through electronic mode only to those Members whose names are recorded in the Register of Member and/or Register of Beneficial Owners maintained by the RTA/ Depositories as on Friday, December 12, 2025 ("Cut-off Date") for seeking approval of the Members of Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. by means of Postal Ballot, only by voting through electronic means (remote e-voting) for the following special resolutions:

Sr. No.	Type of Resolution	Resolution
1.	Special	Appointment of Mrs. Devika Ohri (DIN: 10399161) as an Independent Director of the Company
2.	Special	Approval for the increase in borrowing limits of the Company under Section 180(1)(c) of the Companies Act, 2013
3.	Special	Approval for sell, lease, mortgage or otherwise disposed of whole or substantially whole of the undertaking of the company under Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013
4.	Ordinary	Approval for the related party transactions with Busimatix Global LLP
5.	Ordinary	Approval for the related party transactions with Gopala Sales Private Limited

The Company has engaged the services of M/s. MUFG Intime India Private Limited (Formerly Known as Link Intime India Private Limited ("Registrar", "RTA" or "MUFG Intime") to provide e-voting facilities to its Members. The Company is providing e-voting facilities to the Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form as on December 12, 2025 ("Cut-off Date") to cast their vote electronically through e-voting in proportion to their shareholding to the total paid up equity share capital of the Company.

Please note that physical copy of the Notice, Postal ballot Form and pre-paid business reply envelop have not been sent to the Members for this Postal Ballot in line with exemption provided in the MCA Circulars. A person who is not a Member on the cut-off date should treat the Notice for information purposes only. Members who have not received the Postal Ballot Notice may download it from our website. The manner of remote e-voting has been provided in detail in the Notice of the Postal Ballot.

Members holding shares in physical mode are requested to furnish their email address and mobile number with Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") and Members who have not registered their email address so far, are requested to register their email address for receiving all communications from the Company electronically with RTA at email id: investor.helpdesk@in.mpmis.mufg.com or sharmawant.kushwah@in.mpmis.mufg.com along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.skpmil.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of MUFG Intime India Private Limited (agency for providing the remote e-voting facility) at https://instavote.linkintime.co.in

Members are requested to note that the e-voting period commences on **Wednesday, December 17, 2025 at 09.00 a.m. (IST) onwards to Thursday, January 15, 2026 at 5.00 p.m. (IST)**. Members shall not be allowed e-voting thereafter and the remote e-voting module shall be disabled by MUFG Intime India Private Limited thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member then he/she shall not be allowed to change it subsequently. Members are requested to read carefully the e-voting instructions given in the Notes forming part of the Postal Ballot Notice, before logging into the e-voting link.


The Board of Directors has appointed Shri. Manish Kumar Bansal (Advocate), partner of Globiz Legal as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/ electronic voting in a fair and transparent manner. The scrutinizer will submit his report to the Chairperson of the Company or a person authorized by him after completion of scrutiny and the result of Postal Ballot will be announced within two working days i.e on or before Saturday, January 17, 2026. The results of Postal Ballot will be displayed on the Notice Board of the Company at the Registered Office and intimate to the stock exchanges i.e. BSE Limited and shall also be available on the Company's website at www.skpmil.com and the website of MUFG Intime at https://instavote.linkintime.co.in

In case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the frequently asked questions (FAQs) and Instavote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or may contact to Mr. Sharmawant kushwaha, MUFG Intime India Private Limited, Telephone No. 011-49411000, email at sharmawant.kushwah@in.mpmis.mufg.com or Mrs. Ritika Priyam, Company Secretary & Compliance Officer of the Company at the registered office, Telephone No. 011-46263200 or email at info@skpmil.com or cs@skpmil.com who will address the member's grievances connected.

By Order of the Board of Directors
For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd

Sd/-
Ritika Priyam
Company Secretary Cum Compliance Officer
Mem No.: A33502

Place: New Delhi
Date: December 16, 2025

**SHIVAM AUTOTECH LIMITED**

CIN: L34300HR2005PLC081531


Registered Office: 10, 1st Floor, Tower-A, Emaar Digital Greens,
Sector-61, Golf Course Extension Road, Gurugram, Haryana-122102
Tel: 0124-4698700; Fax: 0124-4698798

Email id: info@shivamautech.com; Website: www.shivamautech.com

CORRIGENDUM TO THE POSTAL BALLOT NOTICE DATED DECEMBER 1, 2025 OF SHIVAM AUTOTECH LIMITED (THE "COMPANY")

This Corrigendum is being issued in continuation of the notice of postal ballot dated December 1, 2025 to the members of the Company, with the voting scheduled to begin on Tuesday, December 2, 2025 at 09:00 A.M. (IST) and conclude on Wednesday, December 31, 2025 at 05:00 P.M. (IST) ("Postal Ballot Notice"). The Postal Ballot Notice was dispatched to the shareholders of the Company on December 1, 2025 through electronic mode, in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, as amended, and the rules made thereunder, each as amended (the "Companies Act"), read with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business as listed therein.

Except as detailed in the attached Corrigendum, all other terms and contents of the Postal Ballot Notice dated December 1, 2025 shall remain unchanged. This Corrigendum will also be available on the website of Company at <https://www.shivamautech.com/cpage.aspx?mpgid=15&pgid=trail=40>. Additionally, the QR code is enclosed for your reference.



For Shivam Autotech Limited
Sd/-
Shakti Kant Mahana
Company Secretary
Membership No. A69273

Place: Gurugram
Date : December 16, 2025

**WENDT (INDIA) LIMITED**

CIN: L85110KA1980PLC003913

Registered Office: 105, 1st Floor, Cauvery Block, National Games Housing Complex,
Koramangala, Bangalore - 560 047. Tel: + 91 4344 405500; Fax: + 91 4344 405620/405630
E-mail: wil@wendtindia.com; Website: www.wendtindia.com

Special Window for re-lodgement of transfer requests for physical shares

Notice is hereby given to the shareholders of the Company, that in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025, a Special Window for a period of six months from 7th July 2025 to 6th January 2026 is available to facilitate the re-lodgement of transfer requests for physical shares. This facility is available for transfer deeds that were lodged prior to 1st April 2019 but which were rejected/ returned/not attended due to deficiency in the documents or lodgement process.


All transfer requests duly rectified and re-lodged during the aforesaid period will be processed through the transfer-cum-demat mode, i.e., the shares will be issued only in dematerialised form after approval of the transfer. Hence, the shareholders availing this window (lodgers) must necessarily have a demat account and should provide the Client Master List (CML) along with the transfer documents, share certificate(s) and other necessary document(s) while lodging the documents for transfer with us.

Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. KFin Technologies Limited, Ms. Krishna Priya Maddula, Senior Manager, Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500032, Toll Free: +91 1800 309 4001, WhatsApp No.: +91 91000 94099, Email: enward.ris@kfintech.com or contact the Company at investorservices@wendtindia.com for further assistance.

Eligible shareholders are requested to submit their transfer requests duly completed in all respects on or before the deadline of **6th January 2026**. Requests received by the Company after this date will not be considered.

For Wendt (India) Limited
Sd/-
Arjun Raj P
Company Secretary

Place: Bengaluru
Date: 17th December 2025

**Dr.Reddy's**

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Dr. Reddy's Laboratories Limited

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/ CIR/2025/97 dated July-2, 2025, all shareholders are hereby informed that a Special Window is being opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares.


This facility is available for Transfer deeds lodged prior to April 01, 2019 and which were rejected, returned, or not attended due to deficiencies in documents/process/or otherwise.

Investors who have missed the earlier deadline of March 31, 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), M/s. Bigshare Services Private Limited, 306, Right Wing, 3rd Floor, Amrutha Ville, Opp. Yashoda Hospital, Rajbhavan Road, Hyderabad 500 082, Telangana, India Tel: +91-40-2337 4967, Fax: +91-40-2337 0295, email ID: psbnyd@bigshareonline.com.

For Dr. Reddy's Laboratories Limited
K Randhir Singh
Company Secretary, Compliance Officer
and Head - CSR

Place : Hyderabad
Date : 16-12-2025

Dr. REDDY'S LABORATORIES LIMITED
Regd. Office: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034
CIN: L85195TG1984PLC004507, Tel: 91 40 4900 2900; Fax: 91 40 4900 2999
email: shares@drreddys.com; website: www.drreddys.com

**VIPUL LIMITED**

CIN: L65923DL2002PLC167807

Registered Office: Unit No 201, C-50, Malviya Nagar, New Delhi - 110017, India
Telephone: 011 - 26387281 / 82 / 83

Website: www.vipulgroup.in; E-mail: secretarial@vipulgroup.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Vipul Limited ("the Company") will be held on **Thursday, January 08, 2026 at 12:00 Noon (IST)** through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice convening the said Meeting.

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide its Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025, Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and all other relevant circulars issued from time to time, permitted the companies to conduct General Meeting ("the Meeting") through Video Conferencing ("VC") facility or other Audio Visual means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and MCA Circulars, Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held through VCOAVM on Thursday, January 08, 2026 at 12:00 Noon (IST). The deemed venue for the EGM will be the Registered Office of the Company.

In terms of the aforesaid Circulars, Notice convening the EGM of the Company has been dispatched only through Electronic mode (i.e.e-mail) to the members who have registered their E-mail IDs with the Depository Participant(s) Company. The Company completed dispatched of Notice of the EGM on Tuesday, December 16, 2025.

In terms of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is pleased to provide to its Members, the facility to exercise their right to vote by remote e-voting or e-voting during the EGM. The Company has engaged the services of NSDL as the Agency to provide e-voting platform to the Members of the Company. The details relating to e-voting in terms of the Act and the relevant Rules are as under:


1. All the businesses as set out in the Notice of EGM may be transacted through remote e-voting or e-voting during the EGM.
2. The remote electronic voting will commence from Monday, January 05, 2026 at 9:00 A.M. and ends on January 07, 2026 at 5:00 P.M. No remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time.
3. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, January 01, 2026 ("Cut-off date"). Any person who acquires shares of the company and becomes a member of the company after the dispatch of the Notice of EGM and holds shares as on cut-off date, may cast his/her vote through remote e-voting or e-voting during the EGM by obtaining the Login-ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if such member is already registered with NSDL for e-voting, then existing User-ID and Password shall be used for casting vote.
4. Only those members who will be present at the EGM through VCOAVM facility but have not already cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system in the EGM.
5. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting during the EGM is Thursday, January 01, 2026 ("Cut-off date").
6. A Member may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
7. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the EGM.
8. The Notice of the EGM is displayed on the website of the Company, i.e. www.vipulgroup.in and available on the website of BSE Limited, i.e. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com
9. The manner in which the members, who are holding shares in dematerialized mode or physical form or who have not registered their email addresses with their Depository/ the Company, can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the EGM will be provided in the Notice of the EGM.
10. In case of any query/grievance with respect to remote e-voting, Shareholders, may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting User Manual for shareholder available under the Downloads section of NSDL e-voting website www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no. 1800 1020 990 and 1800 224 430.

Manner of Registration of e-mail addresses:

In case shares are held in physical mode, please update your e-mail id with secretarial@vipulgroup.in or info@masserv.com. In case shares are held in demat mode, please update your e-mail id with your relevant Depository Participant.

By Order of the Board of Directors
For Vipul Limited
Sd/-
Piyush Bairaig
Company Secretary & Compliance Officer

Date: December 16, 2025
Place: New Delhi

**TATA**

TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

CIN: L67200MH1937PLC002622

Regd. Office: Elphinstone Building, 10 Veer Nariman Road, Mumbai- 400 001
Tel: 022-66658282 Fax: 022-66657917 E-mail: ticl@tata.com
web: www.tatainvestment.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SEBI has allowed opening of a special window to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares lodged prior to the deadline of April 1, 2019, and rejected/returned due to deficiency in the documents.

[SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025]

Key Details:	
Window for re-lodgement	July 7, 2025 to January 6, 2026
Who can re-lodge the transfer request?	Investor whose transfer deeds were lodged prior to April 1, 2019 and rejected/returned due to deficiency in the documents.
How to re-lodge the transfer request?	Submit original transfer documents, along with corrected or missing details to the Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited)
Postal Address	C-101, 1 st Floor, Embassy 247, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli West, Mumbai 400083
Helpline No.	+91 8108118484
For any queries	Raise a service request at https://web.in.mpmis.mufg.com/helpdesk/ServiceRequest.html or send an email at ticl@tata.com

The shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode as per SEBI Guidelines.

For Tata Investment Corporation Limited
Sd/-
Jamshed Patel
Company Secretary and
Chief Compliance Officer
Membership No.: ACS 40081

Place: Mumbai
Date: December 16, 2025

**E.I.D.- PARRY (INDIA) LIMITED**

CIN: L24211TN1975PLC006899

Regd. Office: 'Dare House', Parys Corner, Chennai, 600 001.
Tel: 044-25306789

Website: www.eidparry.com; Email: investorservices@parry.murugappa.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules), notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA).

As per the above provisions, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred to the Demat Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. In respect of the Second Interim Dividend declared and paid for the financial year 2018-19, the due date for transfer of dividends and shares in respect of which the interim dividend is unclaimed or unpaid as per the Act/ Rules is **April 28, 2026**. The Company has already sent individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority at their latest available address advising them to claim their dividends.

Details of shareholders including the name, folio number/DP ID / Client ID and equity shares due for transfer to IEPF Authority are being uploaded on the Company's website at <https://eidparry.com/unpaid-unclaimed-dividend/> for verification by the concerned shareholders. Shareholders may note that both unclaimed dividend and the underlying shares to be transferred to the IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them from the IEPF Authority after following the due procedure prescribed in the Rules.

In case the Company / KFin Technologies Limited (RTA) does not receive the requisite documents by **April 10, 2026**, the Company shall, in compliance with the requirements of the said Rules, transfer the shares to IEPF Authority as per the procedure stipulated in the Rules, without any further notice.

For further information/clarification, concerned shareholders may contact the Company or the RTA at the following address:

E.I.D.- Parry (India) Limited	KFin Technologies Limited
Registered Office: 'Dare House' Parys Corner, Chennai- 600 001. Tel: 044-25306272/6789 Email: investorservices@parry.murugappa.com Website: www.eidparry.com	Unit: E.I.D.-Parry (India) Limited Selenium Tower B, Plot No 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana - 500 032. Tel.: +91-40-6716 2222 Toll Free No.: 1800-309-4001 Email: enward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com </

जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड **Genus**
energizing lives

(पंजीकृत कार्यालय: G-123, सेक्टर-63, मोनार्क-201307 (उत्तर दिल्ली) (दूरभाष: +91-0120-2581999,
ई-मेल: cs@genus.in, वेबसाइट: www.genuspowers.com)
(CIN: L51909UP192P2L0C501597)

**भौतिक रूप में धारित इलेक्ट्रिकी शेरॉयर्स के हस्तांतरण अनुसंधानों के
पुनः जमा (री-लॉन्गमेंट) एवम् विशेष विंडो की सुवर्ण**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, शेरॉय-धारकों को सूचित किया जा रहा है कि भौतिक शेरॉयर्स के हस्तांतरण अनुसंधानों के पुनः-जमा (री-लॉन्गमेंट) को सुगम बनाने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक की अधिक के लिए छह माह की विशेष विंडो खोली गई है। यह सुविधा उन ट्रांसफर ड्राइव्स के लिए उपलब्ध है जो 01 अप्रैल, 2019 की समय-सीमा से पूर्व जारी की गई थीं और दस्तावेजों या प्रक्रिया में कमी अथवा अन्य कारणों से अत्यधिक/वापस की गई/लॉन्गटर्म रह गई हैं।

जिन शेरॉय-धारकों से पूर्व निधारित 31 मार्च, 2021 (ट्रांसफर ड्राइव्स के पुनः-जमा की अंतिम तिथि) की समय-सीमा चुकी गई थी, उनसे अनुरोध है कि इस अवसर को लाभ उठाएं और आवश्यक दस्तावेजों के रूप में रजिस्टर्ड एवम् शेरॉय ड्राफ्ट्स एजेंट ('आरसीटी') Niche Technologies Private Limited को प्रस्तुत करें। पता: 3A, ऑकलैंड प्लेस, 7वीं मंजिल, कक्ष संख्या 7A एवं 7B, कोकलात-700017 ई-मेल: nichetechcpl@nichetechcpl.com

इस अवधि के दौरान, पुनः-जमा किए गए हस्तांतरण पर नई प्रभुताओं केवल डीमैट मोड में जारी की जाएगी। ऐसे ट्रांसफर-कम-डीमैट अनुसंधानों के लिए निधारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

कुंते जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
इसका

स्थान: जयपुर
दिनांक: 16 दिसंबर, 2025
पूरण सिंह रावठी

आवास फाउनेसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मॉडल,
साउथ एंड्र स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020

कच्चा नोटिस

जबकि अधोस्थापनाधिकृत आवास फाउनेसियर्स लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होले ह्यू "द्वितीय आवासियों का प्रतिभूतिपत्र प्राप्त पुनर्जात और प्रतिभूतिपत्र हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13 (12) और सहजातित प्रभुत्व हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शर्तियों के अनुवर्गों में ऋणियों को भाग संपादन पत्र जारी किया गया। (निये तालिका में उनके सामने दशांग अनांतर राशि का मांग पत्र प्राप्त के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की जाती है। यह है कि ऋणी सभ्यताति के नियमों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणियों तथा अनांतर को सूचना दी जाती है कि अधोस्थापनाधिकृत ने उनका अंश की धारा 13(4) सहजातित प्रभुत्व हित (प्रवर्तन) के नियमों के तहत प्रदत्त शर्तियों के अनुवर्गों में पंजीकृत भुगतान पत्रों का अधिपत्र तालिका में उनके सामने दशांग दिनांक का प्रेषण कर लिया है। ऋणियों व अमानतियों को विशिष्ट तथा सभ्यताति के सामान्यतया पुरत द्वा समर्थियों में सभा व्यवहार करने की चेतावनी दी जाती है। उन समर्थियों के साथ किस्मों की प्रकृत का व्यवहार निम्न खातों के सामने दशांग दिव बकाय राशि तथा उन पर ख्यात व खचों के लिए आवास फाउनेस आवास फाउनेसियर्स लिमिटेड के प्रभा के अधीन प्रतीत होगा।



SAPRE AAPKE SAATH HAMARA

ऋणी का नाम	भारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंदक संर्पति का विवरण	कच्चे की राशि एवं प्रकात
राजु यादव, सपना यादव जमानतदार : अरुण कुमार खाता सं. 2311224903274461	8 जुलाई 2025 / १ 300871125 / 4 जुलाई 2025	सम्पत्ति में. 1612-19 / 4 खसरा में. 93 का भाग गली में. 14 गोविन्दपूरी कालकाजी नई दिल्ली 110019 क्षेत्रफल 90 वर्ग यार्ड	भौतिक कच्चा किस्म 12 दिस्वर 2025
स्थान : दिल्ली	दिनांक : 17-12-2025	प्राधिकृत अधिकारी आवास फाउनेसियर्स लिमिटेड	

डीसीबी बैंक लि.

ए-सेट हाउस 7 / 56, डी.बी. गुप्ता रोड
करोल बाग, नई दिल्ली-110005


कच्चा सूचना

वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा ओहोस्ताब्दी में उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उत्पन्न भावी व्याज के साथ तालिका के रूप में यहां नीचे वर्णित अनुसार सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए ऋणियों (**ऋणी व सह-ऋणी**) को बुलाने के लिए नीचे वर्णित तिथियों पर मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी और सह-ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्धारता **ऋणी, सह-ऋणी** और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओहोस्ताब्दी से प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के तहत उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **12.12.2025** को कच्चा ले लिया है।

विशेष रूप से **ऋणी, सह-ऋणी** और सर्वसाधारण को एतद्धारता संपत्ति (अव्यक्त संपत्ति का विवरण) के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन यहां नीचे वर्णित अनुसार संबंधित राशि के लिए डीसीबी बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

ऋणी का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।



मांग सूचना तिथि	27-07-2023
ऋणी(यी) व सह-ऋणी(यी) के नाम	गौरव यादव और किरण
कुल बकाया राशि	₹. 15,50,347 / - (रुपय पंद्रह लाख पचास हजार तीन सौ सैंतीसालीस केवल) 27 जुलाई, 2023 तक
अव्यक्त संपत्ति का विवरण	खरार नं. 284 का मांग, जमुना विहार कॉलोनी, राखिका विहार, फेज 1, मौंडा, टुंडली, तहसील, बराड़-नांदेड, उत्तर प्रदेश 283203 ("प्रतिभूति परिसंपत्ति")

दिनांक: 17.12.2025
स्थान: टुंडला, उत्तर प्रदेश

कृते, प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

आधार हाउसिंग फाइनंसेस लिमिटेड

कापरिट कायलॉन्ग : युनिट नं. 802, एन्टरज रस्तमजीग, वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.

रुद्रपुर शाखा: शॉप नंबर 06 एवं 07, लॉन्ट नंबर डी 1, डी 2, 16/1 और 17/1, खसरा नंबर 80, एसजीएडी कॉम्प्लेक्स, नैनीताल रोड, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर - 263153 (उत्तराखंड)



Aadhar
Housing Finance Ltd


आधिपत्य सूचना प्रसिद्धि 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनंसेस लिमिटेड (AHFL) प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिख्युरीटाइजेशन एवं रिकंटेक्वशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एफएलइंडोफोर्मेन्स ऑफ सिख्युरीटी इंस्ट्रुमेंट एक्ट 2002 एवं सिख्युरीटी इंस्ट्रुमेंट (इंडोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुनर्मुगलान करने के लिए ऋणकर्ता(ओं) प्रतिभूतिकर्ता(ओं) को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ता(ओं) का पुनर्मुगलान करने में असफल रहे हैं, सिख्युरीटी इंडोफोर्मेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ संपठित प्राप्ति कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओं) / प्रतिभूतिकर्ता(ओं) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अघोस्तथाश्वरता में अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एजमें में संपत्ति को मुक्त करने के लिए उपलब्ध सम्य संपत्ति पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्राधान्य को पर क्रणकर्ताएं ध्यान दें। ऋणकर्ता को विशेष रूप एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नही वर्णित शोषी के साथ शोष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्र.	ऋणकर्ता(ओं) / प्रतिभूतिकर्ता (ओं) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 080000000134/ रुद्रपुर शाखा) लोकेश शर्मा (ऋणी) सुमन सोहानी (सह-ऋणी) सदीप चौहान (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेप एवं सम्पूर्ण भाग, चक नं. 134, खसरा नं. 136 (प्रथम मंजिल, फ्लैट नं. एफ-6, फैस-3) क्षेत्रफल 42.36 वर्ग मीटर, बिंला ग्राम डिस्ट्रिक्ट (समय उपरटमेंट) ग्रीन पार्क से बाहर, पीराना, विशाखापूर, जिला रावेर अउर प्रदेश-244921 चवसीसार्पे :- पूर्व - अन्य व्यक्ति की संपत्ति, पश्चिम - 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर - फ्लैट नं. एफ-5, दक्षिण - फ्लैट नं. एफ-7	09-11-2024 & ₹ 5,00,699/-	15-12-2025

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 17.12.2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनंसेस लिमिटेड

<div> <div>  <div> औद्योगिक अधिग्रहण सूचना पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई एमएफसी सीडी टावर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 </div> </div> <div> ICICI Home Finance </div> </div>				
निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एमएफसी सीडी टावर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 शाखा कार्यालय : प्रथम तल, बी-20, अवास विकास, दिल्ली रोड, सहारनपुर - 247001 जबकि, आधारभूतसंरचना हेतु आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रभुत्वमिगहन एवं पुनर्वर्गीकरण तथा प्रभुत्वमिगहन प्रदान अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रभुत्वमिगहन (पूर्वतन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न संपत्तिगत ऋणकर्ताओं को मॉग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित सारिका का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिक्रियामुक्त करने को कहा गया था। वैकिक ऋणकर्ता निगमित बकाया राशि का प्रतिक्रियामुक्त करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योत्सर्गसंरचना में यहां दिखाने निम्न विवरणों संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपा-धारा (4) के अंतर्गत उन्हीं प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निगमितकृत शक्तियों पर अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष संकेत में तथा जनसाधारण को एतद्वारा समान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करे तथा संपत्ति का कोई व वित्तीय भी प्रकार का लेन-देन, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभुत्वमिगहन में होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रभुत्वमिगहन परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपा-धारा (6) के प्राक्काओं की ओर अकटूक किया जाता है।				
क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता का नाम / आवास संख्या	संपत्ति का विवरण / अधिग्रहण की तिथि	मॉग सूचना की तिथि / मॉग सूचना में राशि (₹)	शाखा का नाम
1	रुचि (ऋणकर्ता), कपिल देव (सह-ऋणकर्ता), Lhmrt00001364500.	गाढा संख्या 953 के भाग पर निर्मित मकान जो मोहल्ला भारत विशार कॉलोनी तैमूरपुर परगना विजिनर 0 विजिनर उत्तर प्रदेश 246701 में सित्ता तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमाएँ :- उत्तर :- पक्ष का मकान, दक्षिण :- संजय अग्रवाल का प्लॉट, पूर्व :- देशेर का मकान, पश्चिम :- 25 फीट चौड़ी सड़क / अधिग्रहण की तिथि : 11-12-2025	14-09-2024 रु. 14,09,439.1/-	मेरठ
2	रुचि (ऋणकर्ता), कपिल देव (सह-ऋणकर्ता), Lhmrt00001364523.	गाढा संख्या 953 के भाग पर निर्मित मकान जो मोहल्ला भारत विशार कॉलोनी तैमूरपुर परगना विजिनर 0 विजिनर उत्तर प्रदेश 246701 में सित्ता तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमाएँ :- उत्तर :- पक्ष का मकान, दक्षिण :- संजय अग्रवाल का प्लॉट, पूर्व :- देशेर का मकान, पश्चिम :- 25 फीट चौड़ी सड़क / अधिग्रहण की तिथि : 11-12-2025	14-09-2024 रु. 49,604.78/-	मेरठ
3	रुचि (ऋणकर्ता), कपिल देव (सह-ऋणकर्ता), Lhmrt00001487240.	गाढा संख्या 953 के भाग पर निर्मित मकान जो मोहल्ला भारत विशार कॉलोनी तैमूरपुर परगना विजिनर 0 विजिनर उत्तर प्रदेश 246701 में सित्ता तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमाएँ :- उत्तर :- पक्ष का मकान, दक्षिण :- संजय अग्रवाल का प्लॉट, पूर्व :- देशेर का मकान, पश्चिम :- 25 फीट चौड़ी सड़क / अधिग्रहण की तिथि : 11-12-2025	14-09-2024 रु. 4,25,730.86/-	मेरठ
4	सौरभ (ऋणकर्ता), सुरेष्ठा गोयल (सह-ऋणकर्ता), राजेश कुमार मोयल मोग बासा (सह-ऋणकर्ता), Lhsab000001472153	597 प्लॉट नं. 154 खरारा संख्या 597 एफआई मॉजा, केक दर मिक्काना स्वाद बैरन परगना सहारनपुर दर आबादी लखी धाम कॉलोनी सहारनपुर सहारनपुर 1 सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247001 में सित्ता तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमाएँ :- पूर्व :- उमंग का प्लॉट नं. 153 (47 फीट), पश्चिम :- प्लॉट नं. 155 (47 फीट), उत्तर 20 फीट चौड़ी सड़क (23 फीट), दक्षिण :- प्रेमलता जैन का प्लॉट नं. 175 / अधिग्रहण की तिथि : 11-12-2025	24-06-2025 रु. 77,423.26/-	सहारनपुर
5	सौरभ (ऋणकर्ता), सुरेष्ठा गोयल (सह-ऋणकर्ता), राजेश कुमार मोयल मोग बासा (सह-ऋणकर्ता), Lhsab000001472154	597 प्लॉट नं. 154 खरारा संख्या 597 एफआई मॉजा, केक दर मिक्काना स्वाद बैरन परगना सहारनपुर दर आबादी लखी धाम कॉलोनी सहारनपुर सहारनपुर 1 सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247001 में सित्ता तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमाएँ :- पूर्व :- उमंग का प्लॉट नं. 153 (47 फीट), दक्षिण :- प्रेमलता जैन का प्लॉट नं. 175 / अधिग्रहण की तिथि : 11-12-2025	24-06-2025 रु. 25,08,473/-	सहारनपुर

जम्पर-मौलि सन्तियागो (डी) /गारटर/को एल्टेद्वारा निवासित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिसीय सूनना दी जाति है. अन्त्यथा बंककृत सन्तियागो का इस सूनना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिसीस के प्रमाण पर, प्रतिभुति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रमाणों के अनुसार, विक्रय कर दिया जायेगा।

दिनांक : 17 दिसंबर 2025
स्थान : बिजनीर, सहारनपुर

प्राधिकृत बयिचारा
आईसीआईआईडी डोम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

HDFC BANK
We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

कच्ची का नोटिस

शाखा का पता: द्वितीय एवं तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टेट हॉल के सामने, देहरादून-248 001
Tel. : 18002100018 CIN : L58920MH1994PLC080618 **वेबसाइट :** www.hdfcbank.com

जैसा कि **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राथमिक अधिकारी के रूप में (माननीय एनसीएलटी-मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित सामगलेन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) (**एचडीएफसी**) वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिनिधिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिक्रमि हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिक्रमि हित (प्रतिनिधि) अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ परित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक नाम सूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी (यौं) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौं) को उनके नाम के समुच्चय केन्द्र दर्शाई गयी के साथ कथित सूचना में दर्शाए गए अनुसार लाम्, द्वारा पर उसमें लगने वाले ब्याज को कथित सूचना (ओ) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान और/या वसुली की तिथि तल प्रसारित कथ ब्याज, लगत, प्रभार और/या क भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) / कानूनी वारिस(ओं) और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	बकाया मांग देयताप्रति (₹) (को)	सूचना की तिथि	कच्ची की तिथि एवं प्रकार	अचल सम्पत्ति / प्रतिक्रमि परिसम्पत्ति का विवरण
1	श्री भरत कुमार (ऋणी) श्रीमती रेखा पवार (साह-ऋणी)	4,81,194/- दिनांक 30.06.2025* तक	28.07.2025	15.12.2025 सांकेतिक	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग गाटा नं 136/2/1 निगर पर मकान, साथ में आवसीय कोलोनी नन सति में प्राइवेट मकान नं 86, गाम फागपुर, महरोला, ठहरीली रुद्रपुर, जिला ऊमसिंह नगर, वर्तमान और कथित दोनों का निर्माण सहित, साइड गाम : 30 X 30 फुट, प्लॉट गाम क्षेत्रफल : 83.64 वर्ग मी/ 900 वर्ग फुट एवं क्वर्ड क्षेत्रफल : 83.64 वर्ग मी/ 900 वर्ग फुट, चौदहीरी : पर 18.45 5.48 मीटर, प. अन्य मूखंड नं 83, उरः अन्य मूखंड नं 87, उरः अन्य मूखंड नं 85

*भुगतान और/या वसुली की तिथि तल उचित लाम् अनुसार और/या लगने वाले ब्याज, प्रासंगिक ब्याजलागत, प्रभार और/या के साथ, जैसा लाम् हो।
हलांकि, उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यौं) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौं) ब्यवसाय राशि का भुगतान करने में असफल रहें इसलिए एवद्वारा प्रवर्तन कानूनी उत्तराधिकारी (यौं) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि **एचडीएफसी** के प्राधिकृत अधिकारी से कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ परित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत ऐसे प्रवर्तन अधिकारी का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों को अवल सम्पत्ति / प्रतिक्रमि परिसम्पत्ति पर **सांकेतिक कच्चा** कर लिया है।
विशेषतः उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यौं) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अवल सम्पत्ति / प्रतिक्रमि परिसम्पत्ति के साथ कच्ची न लेने-दने न करें और कथित अवल सम्पत्ति / प्रतिक्रमि परिसम्पत्ति के साथ कच्ची न लेने-दने **एचडीएफसी** के रचक के अधीन होगा।
एचडीएफसी के रचक (यौं) और कानूनी-प्रतिनिधि (यौं) को अधिनियम की धारा 13 की उर-अनु (6) के प्रवर्तनों के अंतर्गत उपलब्ध सभ्य के भीतर प्रतिक्रमि परिसम्पत्ति / यों को मुक्त करने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
अधोस्तराधिकारी द्वारा उक्त ऋणी / कानूनी वारिस(ओं) / कानूनीन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि पंचमामा की तैयार प्रतियां उपलब्ध हैं, जिसे सामान्य कार्यालय अधिव के दौरान किसी भी प्रकार दिसे नहीं अधोस्तराधिकारी से संबंधित प्रतिक्रमि प्राप्त कर सकेंगे।
दिनांक: 17.12.2025
स्थान : रुद्रपुर
पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक भवन, सेनापति भवन मार्ग, लोहार पल (परिषद) मुम्बई-400 013
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी

[illegible]

SBFC एसबीएफसी फाइनैन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वॉयर, संगम कॉम्प्लेक्स, सीटीएस नं 95ए, 127, अंधेरी कुर्ला रोड, ग्राम चकला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, दूरभाष : 91 2267875300, फैक्स : 91 2267875334
www.SBFC.com, निगमित पदधान संख्या : U67190MH2008PTC178270

सार्वजनिक सूचना

जनात को यह सूचित करना है कि एग्रीकल्चरल सर्वगुणों की नीलामी का संवाहन एसबीएफसी फाइनैन्स लिमिटेड द्वारा 26-12-2026 को दोप 12:00 एच 03:00 बजे निम्न वर्गीत शाखा तय पर किया जाएगा। हमारे अन्तर्गत उम्मेदवारों को जो अपनी बकाया देयराशिओं का अनुमान करने में सफल हो सके हैं, उन्हें ऋण खातों से संबंधित सर्वगुणों नीलाम किये जाने हैं। नीलामी की हमारी सूचनायें इन चत्वारःकोशों को विहित दान से निम्न की गयी हैं। शाखा नाम के साथ निम्न वर्गीत हमारे अन्तर्गत उम्मेदवारों के अतिदेय ऋण खातों से संबंधित सर्वगुणों नीलाम किये जाने हैं।

चरदीवाग शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स लिमिटेड, 2/28, पहली मंजिल, नं-2 चौक के पास, एन.आई.टी., एनएच-2, करीबाबाद - 121 001, चरदीवाग, AP00282120, AP00486467, AP00503291, AP00576838, AP00604687, AP00608152, AP00637288, AP00675412, AP00 710187, AP00701145, AP00706426, AP00709564, AP00709688, AP00715464, AP00720152, AP00720300, AP00722278, AP00723352, AP00725507, AP00768503

गाजियाबाद शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, भीट, बेसमेंट, आखाडी राजपुर, गाजियाबाद - 201002, गाजियाबाद, AP00625408, AP00713921, AP00720609, AP00724653, AP00759732

गुधग्राम शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, 342/9, सुभाष नगर, प्रथम तल, यू.के.लवे रोड, गुडगांव, हरियाणा-122 001, गुधग्राम, AP00166333, AP00187192, AP00385375, AP00541272, AP00687032, AP00701265, AP00708126, AP00728898

हाउड शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, प्रथम तल, पीसी जैलर्स के ऊपर, नंद परगना, नंद रोड, हसीली एच विला हाउड 245101, (पूर्व), हाउड, AP00415724, AP00648795, AP00694290, AP00696145, AP00696300, AP00699314, AP00699463, AP00701276, AP00715437, AP00720305, AP00725219

होबल शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स लिमिटेड, प्रथम तल, एम.पी.बी बैंक के ऊपर, हसनपुर चौक, होबल, हरियाणा 121108, नोडल, AP00539928, AP00675675, AP00677774, AP00693463, AP00708972, AP00709398, AP00715509

कोल्ला मुबारकपुर शाखा का पाता : प्रथम तल, ए-88, अर्जुन नगर, कोल्ला मुबारकपुर, नई दिल्ली - 110003, कोल्ला मुबारकपुर, AP00511295, AP00596191, AP00698306, AP00700061, AP00700428, AP00702130, AP00707641, AP00709678, AP00710293, AP00716219, AP00726179, AP00727618

लक्ष्मी नगर शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, 116 भी एन-2, रोड ताल बंगला, हरदियर नगर, कानपुर- 208007, लक्ष्मी नगर, AP00440956, AP00457331, AP00475607, AP00556102, AP00557066, AP00686604, AP00701505, AP00708474, AP00708478, AP00709178, AP00709180, AP00709180, AP00724240, AP00726076, AP00726223, AP00727080, AP00729743, AP00730644, AP00765305, AP00774089

नोडबा शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, गिलर नं 117, ए.सी.बी फाइनैन्सियल सर्विसेस के सामने, मेन दादरी रोड, सेक्टर 11, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोडबा 201304 (नोएडा), नोएडा, AP00575261, AP00701462, AP00712550, AP00712656, AP00714757, AP00720994, AP00722232, AP00724762, AP00734251, AP00746261, AP00779544

शामली शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स लिमिटेड, शामली, यू.एल. टेजस कॉम्प्लेक्स, रेस कालान रोड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रोड, शामली, उत्तर प्रदेश 247778, शामली, AP00674510, AP00678758, AP00688272, AP00716902, AP00724280, AP00827805

आगरा शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, सी/14, प्रथम तल डॉल नंबर-4, भावान मल्टीप्लेक्स, सेक्टर-13 आगरा विकास आगरा-282007, आगरा, AP00318769, AP00588104, AP0061027, AP00675731, AP00695337, AP00701575, AP00709005, AP00709880, AP00715454, AP00715699, AP00718817, AP00723421, AP00726264, AP00726296, AP00734332, AP00827626

अलीगढ़ शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, मकान नंबर 1/37, पमालाल भवन, नन देवी मंदिर के पास, नौरंगाबाद, अलीगढ़ - 202001 उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, IP00461728, AP00530987, AP00548653, AP00549144, AP00613193, AP00623862, AP00650607, AP00652777, AP00674000, AP00674789, AP00697111, AP00703921, AP00703283, AP00708056, AP00708421, AP00712911, AP00721411, AP00723513, AP00726125, AP00730311, AP00743618, AP00757095, AP00765330, AP00774764, AP00776064

बरेली शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, मूलत, दीन दयाल पुरम, बरेली - 243001, बरेली, AP00198895, AP00736610, AP007457648, AP00542402, AP00566674, AP00640628, AP00668359, AP00668700, AP00722848, AP00732226, AP00738009, AP00771223, AP00776778, AP00827725

हल्द्वानी शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम तल, नैनीताल रोड- मोटिया पड़ान, सर बैंक बिल्डिंग, कुष्मा सीनियरल के सामने, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड - 263138, हल्द्वानी, AP00339053, AP00346112, AP00545948, AP00577758, AP00577970, AP00638991, AP00649299, AP00649780, AP00656068, AP00688934, AP00699398, AP00723409, AP00723626, AP00724739, AP00726124, AP00727019

मथुरा शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, द्वितीय तल, अम्ब काणन, भीएसए डिग्री कॉलेज के सामने, भूतेश्वर रोड, मथुरा - 281001, मथुरा, AP00358114, AP00339310, AP00486757, AP00512317, AP00637406, AP00637747, AP00664566, AP00672477, AP00673385, AP00685734, AP00698398, AP00701246, AP00710597, AP00711574, AP00727936, AP00828020

रुद्रपुर शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, तुलसी तल, पॉस्ट नं-24, आवास विकास नैनीताल रोड, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, 263163, रुद्रपुर, AP00729672, AP00734267, AP00734709, AP00734748

देहरादून शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, दुकान नं 16, प्रथम तल, पदुत प्लाजा गैबी रोड, प्रिंस चौक, देहरादून - 248001, देहरादून, AP00487091, AP00518761, AP00519546, AP00625514, AP00645511, AP00699937, AP00700850, AP00708768, AP00709651, AP00709923, AP00713078, AP00720625, AP00734136

हरिद्वार शाखा का पाता : एसबीएफसी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम तल, न्यू मार्ट, पृथ्वी रोड, लोहा मंडी, रेवेले पुलिस चौकी के पास, जालापुर - 249407 (हरिद्वार), हरिद्वार, AP00447516, AP0044801

Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.

Cut through the noise every day
with expert columns that decode
trends before they unfold,
only in Business Standard.

To book your copy,
SMS **reachbs** to **57575** or
email **order@bsmail.in**



Business Standard Insight Out